



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 513]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 1979/अग्रहायण 12, 1901

No. 513]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 1979/AGRAHAYANA 12, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

• नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1979

का०आ० 777(अ).—राष्ट्रपति ने, संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अधीन 22 अगस्त, 1979 को लोक सभा विघटित कर दी थी ;

और नया सदन गठित करने के प्रयोजनार्थ साधारण निर्वाचन किए जाने हैं :

अतः, अख, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करने हैं कि वे उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें।

[सं० का० 13 (7)/79-विधायी-II]

आर० बी० एस० पेरी शास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1979

S.O. 777(E).—Whereas the House of the People was dissolved by the President under sub-clause (b) of clause (2) of article 85 of the Constitution on the 22nd August, 1979;

And whereas a general election has to be held for the purpose of constituting a new House;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is hereby pleased to call upon all the parliamentary constituencies to elect members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder.

[No. F. 13(7)/79—Leg. II]

R. V. S. PERI SASTRI, Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1979

का०प्रा० 778(अ).—भारत के राष्ट्रपति ने भारत के राजपत्र में तारीख 3 दिसम्बर, 1979 को प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग—

उक्त निर्वाचनों में से प्रत्येक के बारे में—

- (क) नाम-निर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 1979 (सोमवार)
- (ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 11 दिसम्बर, 1979 (मंगलवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अंतिम तारीख 13 दिसम्बर, 1979 (बुधवार)
- (घ) नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 1 में प्रत्येक राज्य के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से, स्तम्भ 2 में के उक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख या तारीखों को ऐसी तारीखों के रूप में जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, उस निर्वाचन-क्षेत्र में के स्तम्भ 3 में ऐसी प्रत्येक तारीख के सामने विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र में, मतदान होगा ; तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा । 10 जनवरी, 1980 (बुधवार)

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम	मतदान की तारीख	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की क्रम सं० तथा नाम
1	2	3

1. आंध्र प्रदेश

1. श्रीकाकुलम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
2. पाधंथीपुरम (अ०ज०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. बोम्मिली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
4. विशाखापटनम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
5. भद्राचलम (अ०ज०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
6. अनकापल्ली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
7. ककिनाडा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
8. राजामुन्वरी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
9. अमालापुरम (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
10. नारसपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
11. हसूल	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
12. मछलीपटनम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
13. विजयवाड़ा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
14. तेनाली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
15. गुंटुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
16. आपतला	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
17. नरसाराओपेट	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
18. ओंगोले	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
19. नेल्लोर (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
20. तिरुपथी (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
21. खितूर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
22. राजमपेट	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
23. कुड्डापाह	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
24. हिन्दुपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
25. अनन्तपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
26. कुरनूल	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
27. नन्दयाल	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

1	2	3
28. नगर कुनूल (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
29. महबूबनगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
30. हैदराबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
31. सिकन्दराबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
32. सिद्दीपेट (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
33. मेडक	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
34. निजामाबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
35. आदिलाबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
36. पेड्डापल्ली (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
37. करीमनगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
38. हुसमकोण्डा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
39. बारांगल	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
40. खम्माम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
41. नालगोंडा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
42. मिरयालगुडा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	

2. आसाम

1. करीमगंज (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
2. सिल्चर	8 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. स्वशासी जिले (अ०ज०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
4. धुबी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
5. कोकोहाड़ (अ०ज०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
6. बारपेटा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
7. गोहाटी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
8. मंगलवाई	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
9. तेजपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
10. नौगोंग	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
11. कलियाबोर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
12. जोरहाट	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
13. डिब्रुगढ़	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
14. लखीमपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)

3. बिहार

1. बगहा (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
2. बेतिया	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. मोतिहारी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
4. गोपालगंज	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
5. सिवान	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
6. महाराजगंज	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
7. छपरा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
8. हाजीपुर (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
9. वैशाखी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
10. मुजफ्फरपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
11. सीतामढ़ी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
12. शिवहर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
13. भदुबनी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
14. झंझारपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
15. दरभंगा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
16. रोसेड़ा (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
17. समस्तीपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
18. बाढ़	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
19. बलिया	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
20. सहरसा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

1	2	3
21. मधेपुरा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
22. अररिया (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
23. किशनगंज	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
24. पूर्णिया	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
25. कटिहार	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
26. राजमहल (अ० ज० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
27. कुमका (अ० ज० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
28. गोड्डा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
29. बाँका	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
30. भागलपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
31. खगरिया	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
32. मुंगेर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
33. बेगूसराय	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
34. नालन्दा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
35. पटना	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
36. आरा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
37. बक्सर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
38. सासाराम (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
39. बिशमगंज	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
40. भोजपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
41. जहानाबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
42. नवादा (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
43. गया (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
44. बतौरा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
45. कोडरमा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
46. गिरिडीह	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
47. धनबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
48. हजारीबाग	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
49. राँची	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
50. जमशेदपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
51. सिंहभूम (अ० ज० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
52. छत्ती (अ० ज० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
53. लोहरदगा (अ० ज० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
54. पलामू (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	

4—गुजरात

1. कच्छ	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
2. सुरेन्द्र नगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. जामनगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
4. राजकोट	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
5. पोरबन्दर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
6. जूनागढ़	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
7. अमरेली	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
8. भावनगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
9. धनकु (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
10. अहमदाबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
11. गांधीनगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
12. मेहसाना	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
13. पाटन (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
14. बनसकंधा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
15. साबरकंधा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
16. कपड़वा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
17. धोले (अ० ज० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
18. गोधरा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
19. कैरा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

1	2	3
20. आनन्द	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
21. छोटा उधमपुर (अ०ज०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
22. बड़ीदा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
23. भड़ीच	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
24. सूरत	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
25. माण्डवी (अ०ज०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
26. बुलसर (अ०ज०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	

5—हरियाणा

1. धम्बाला (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
2. कुरुक्षेत्र	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
3. करनाल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
4. सोनीपत	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
5. रोहतक	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
6. फरीदाबाद	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
7. महेन्द्रगढ़	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
8. भिवानी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
9. हिसार	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
10. सिरसा (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)

6—हिमाचल प्रदेश

1. शिमला (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	1—किन्नौर (अ०ज०जा०)
2. मण्डी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	2—रामपुर (अ०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	54—भरमौर (अ०ज०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	55—साहील-स्पीति (अ०ज०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	56—कुल्लु
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	57—बंजार
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	58—भानी (अ०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	59—करसोग (अ०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	60—चम्पोट
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	61—नाचण (अ०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	62—सुन्दरनगर
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	63—बल्लू (अ०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	64—गोपासपुर
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	65—धरमपुर
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	66—जोगिन्दरनगर
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	67—दरंग
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	68—मण्डी
3. कांगड़ा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
4. हमीरपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	

7—जम्मू-कश्मीर

1. बारामूला	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
2. सीमगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. अनन्तनाग	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
4. सदाब	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
5. उधमपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
6. जम्मू	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

8—कर्नाटक

1. बीदर (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
2. गुलबर्गा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
3. रामचूर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

1	2	3
4. कोप्पल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
5. बेल्लारी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
6. वाबनोरे	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
7. चिन्नवुर्ग	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
8. दुमकुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
9. चिक्कल्लापुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
10. कोलार (प्र०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
11. कनकपुरा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
12. बंगलौर उत्तरी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
13. बंगलौर दक्षिणी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
14. माण्ड्या	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
15. चामराजनगर (प्र०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
16. मैसूर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
17. मंगलौर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
18. उदीपी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
19. हुसन	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
20. चिकमगलूर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
21. शिमोगा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
22. कनारा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
23. धारवाड़ दक्षिणी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
24. धारवाड़ उत्तरी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
25. बेलगाम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
26. चिक्कोडी (प्र०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
27. बागलकोट	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
28. बीजापुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	

9. केरल

1. कासरगोड	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
2. कन्नानोर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. कन्नूगारा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
4. कालीकट	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
5. मम्बोरी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
6. पोन्नामो	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
7. पालघाट	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
8. थोटापालम (प्र०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
9. त्रिचूर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
10. मुकुन्दपुरम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
11. एरनाकुलम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
12. मुवाट्टपुझा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
13. कोट्टायम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
14. इडुक्की	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
15. थल्लेप्पी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
16. मवेसीकारा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
17. थन्नूर (प्र०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
18. त्वीलोन	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
19. थिरायिनकिल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
20. त्रिवेन्द्रम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)

10. मध्य प्रदेश

1. मुरैना (प्र०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
2. भिन्न	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. ग्वालियर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
4. गुना	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

1	2	3
5. सागर (प्र०ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
6. खजुराहो	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
7. दमोह	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
8. सतमा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
9. रीवा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
10. सीधी (प्र०ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
11. शहडोल (प्र०ज०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
12. सरगुजा (प्र०ज०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
13. रायगढ़ (प्र०ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
14. जालंधी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
15. बिलासपुर (प्र०ज०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
16. सारंगढ़ (प्र०ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
17. रायपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
18. महासमुन्ध	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
19. कांकेर (प्र०ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	143—शिवावा (प्र०ज०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	146—मानुप्रतापपुर (प्र०ज०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	147—कांकेर (प्र०ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	148—केशकास (प्र०ज०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	157—नारायणपुर (प्र०ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	165—गुन्डरदेही
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	167—बालोव
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	168—डोंडीलोहारा (प्र०ज०)
20. बस्तर (प्र०ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	149—कोंडगांव (प्र०ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	150—मानपुरी (प्र०ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	151—जगदलपुर (प्र०ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	152—केशलूर (प्र०ज०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	153—पिलकोट (प्र०ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	154—वन्तेवाड़ा (प्र०ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	155—फोन्टा (प्र०ज०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	156—विजापुर (प्र०ज०)
21. बुरग	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
22. राजनीलगांव	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
23. बालाघाट	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
24. मण्डला (प्र०ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
25. जबलपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
26. मिवनी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
27. छिन्दवाड़ा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
28. बेतूल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
29. होशंगाबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
30. भोपाल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
31. बिबिना	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
32. राजगढ़	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
33. शाजापुर (प्र०ज०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
34. खंडवा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
35. खरगोन	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
36. धार (प्र०ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
37. इन्दौर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
38. उज्जैन (प्र०ज०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
39. झाबुआ (प्र०ज०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
40. मन्डसौर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	

1

2

3

11. महाराष्ट्र

1. राजापुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
2. रत्नगिरि	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. कोलाबा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
4. बम्बई दक्षिण	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
5. बम्बई दक्षिण केन्द्रीय	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
6. बम्बई उत्तर केन्द्रीय	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
7. बम्बई उत्तर पूर्व	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
8. बम्बई उत्तर पश्चिम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
9. बम्बई उत्तर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
10. ठाणे	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
11. वृहानु (अ०ज०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
12. नाशिक	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
13. मालेगांव (अ०ज०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
14. धुले (अ०ज०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
15. नन्दुरवार (अ०ज०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
16. इरवोल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
17. जलगांव	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
18. बुलडाना (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
19. धकोला	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
20. बाधिम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
21. अमरावती	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
22. रामटेक	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
23. नागपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
24. भन्डारा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
25. विमुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
26. चन्द्रापुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
27. वर्धा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
28. यवतमाल	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
29. द्विगोली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
30. नांदेड	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
31. परभनी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
32. जयना	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
33. भौरंगाबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
34. भिर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
35. लाटूर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
36. भोसमानाबाद (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
37. सोलापुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
38. पंढारपुर (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
39. अहमदनगर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
40. कोपरगांव	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
41. खेड	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
42. पुणे	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
43. बारामती	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
44. सतारा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
45. कराड	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
46. सांगली	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
47. हवलकराजी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
48. कोल्हापुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)

12. मणिपुर

1. प्रास्तिक मणिपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
2. त्राहा मणिपुर (अ०ज०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)

1

2

3

13. मेघालय

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| 1. शिलांग | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 2. दुरा | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |

14. नागालैंड

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1. नागालैंड | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
|-------------|-----------------------------|

15. झारखंड

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. मयूरभंज (झ० ख० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 2. बालासोर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 3. भाद्रक (झ० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 4. जाजपुर (झ० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 5. केम्रपारा | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 6. कटक | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 7. जगतसिंहपुर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 8. धुबरी | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 9. धुबनेश्वर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 10. धासका | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 11. बरहामपुर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 12. कोरापुट (झ० ख० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 13. नौरंगपुर (झ० ख० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 14. कालाहण्डी | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 15. फूलबानी (झ० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 16. बोर्जगीर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 17. सम्बलपुर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 18. देवगढ़ | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 19. धेम्कानल | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 20. मुन्बरगढ़ (झ० ख० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 21. बयोन्नर (झ० ख० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |

16. पंजाब

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. गुरदासपुर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 2. भक्तसर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 3. तरनतारन | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 4. जालंधर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 5. फिरोज़ (झ० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 6. होशियारपुर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 7. रोपड़ (झ० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 8. पटियाला | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 9. लुधियाना | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 10. संगरूर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 11. मटिगडा (झ० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 12. करीबकोट | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 13. फिरोज़पुर | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |

17. राजस्थान

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. गंगानगर (झ० जा०) | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 2. बीकानेर | 6 जनवरी, 1980 (रविवार) |
| 3. बुन्देलखण्ड | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 4. बुन्देलखण्ड | 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) |
| 5. सीकर | 6 जनवरी, 1980 (रविवार) |

1	2	3
6. जयपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
7. दोसा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
8. धनवर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
9. भरतपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
10. बयाना (अ० ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
11. सवाई माधोपुर (अ० ज० ज०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
12. धनमेर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
13. टोंक (अ० ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
14. कोटा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
15. झालावाड़	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
16. बांसवाड़ा (अ० ज० ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	128—कुशलगढ़ (अ० ज० ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	129—दोनपुर (अ० ज० ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	130—वाटोन (अ० ज० ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	131—बांसवाड़ा
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	132—बागीबोरा (अ० ज० ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	133—सागवाड़ा (अ० ज० ज०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	134—धौरासी (अ० ज० ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	135—दूंगरपुर (अ० ज० ज०)
17. सलुम्बर (अ० ज० ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
18. उदयपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
19. बिलसोड़गढ़	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	108—लाङपुरा
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	115—रामगंज मण्डी
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	121—बेगु
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	122—गंगरार (अ० ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	123—कपासिन
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	124—चित्तौड़गढ़
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	125—निम्बाहड़ा
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	126—बड़ी मादड़ी
20. भीलवाड़ा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
21. पाली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
22. जालौर (अ० ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
23. बाकमेर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	175—सिवाना (अ० ज०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	176—पंचपदरा
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	177—बाड़मेर
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	178—गुडामलानी
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	179—चोहटन
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	180—भिव
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	181—जैतलमेर
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	182—शेरगढ़
24. जोधपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
25. नागौर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	

18. सिक्किम

सिक्किम

3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)

19. तमिलनाडु

1. मद्रास उत्तर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
2. मद्रास केन्द्रीय	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. मद्रास दक्षिण	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
4. श्रीपेरम्बूर (अ० ज०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
5. बिगलपट्ट	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

1

2

3

6. आर्कोनम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
7. बेल्सोर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
8. तिरुपाट्टूर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
9. बंबीवासी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
10. टिडिवाताम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
11. कुड्डालोर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
12. चिवम्बरम (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
13. धर्मपुरी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
14. कृष्णगिरि	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
15. रमिपुरम (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
16. सलेम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
17. तिरुचेंगोडे	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
18. नीलगिरिस	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
19. गोविन्देष्टिपालयम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
20. कोयम्बरूर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
21. पोल्ताची (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
22. पलानी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
23. जिनैगुल	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
24. मडुराई	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
25. पेरियाकुलम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
26. करूर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
27. तिरुचिरापल्ली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
28. पेरम्बलूर (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
29. मयूरम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
30. नागापट्टीनम (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
31. थन्जावूर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
32. पुदुकोट्टाई	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
33. सिवगंगा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
34. रामनाथपुरम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
35. शिवकासी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
36. तिरुनेलवेली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
37. टेनकासी (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
38. तिरुचेन्नूर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
39. नागरकोटल	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

20 त्रिपुरा

1. त्रिपुरा पश्चिमी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
2. त्रिपुरा पूर्व (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

21. उत्तर प्रदेश

1. टिहरी-गढ़वाल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
2. गढ़वाल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
3. धर्मोड़ा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
4. नैनीताल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
5. बिजनौर (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
6. अमरोहा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
7. मुरादाबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
8. रामपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
9. सम्भल	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)
10. जवाय	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

17—सेवहारा
18—धामपुर
24—काठ
25—अमरोहा
26—हसनपुर

1	2	3
11. झाँसवा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
12. बरेली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
13. पीलीभीत	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
14. झाँझापुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
15. खीरी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
16. झाँझाबाद	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
17. सीतापुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
18. मिथिला (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
19. हरदोई (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
20. लखनऊ	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
21. मोहनलालगंज (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
22. उन्नाव	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	91—बाँगरमऊ
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	93—सफीपुर (अ०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	94—उन्नाव
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	95—हुस्ना
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	96—भगवन्तनगर
23. रायबरेली	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
24. प्रतापगढ़	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
25. छमेठी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
26. सुल्तानपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
27. अकबरपुर (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
28. फैजाबाद	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
29. बाराबंकी (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
30. केसरगंज	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
31. बहराइन	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
32. बलरामपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
33. गोंडा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
34. बस्ती (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
35. झुमरियागंज	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
36. खलीलाबाद	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	169—रामनगर
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	175—सहरा
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	176—मोहवाबल
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	177—खलीलाबाद (अ०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	178—हैमर बाजार (अ०जा०)
37. बलिया (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
38. गोरखपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	184—पिपराइन
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	185—गोरखपुर
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	186—माफीराम
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	187—सहजनवा
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	193—श्यामदेउरवा
39. महाराजगंज	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
40. पड़रौना	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	194—नौरगिया (अ०जा०)
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	195—रामकोला
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	196—हाटा (अ०जा०)
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	197—पड़रौना
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	198—सेबरही
41. देवरिया	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	199—फाजिलनगर
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	200—कसया
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	201—गौरीबाजार
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	202—घरपुर
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	203—देवरिया

1	2	3
42. सलेमपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार)	204—भाटपार गनी 205—सलेमपुर 206—बगरहूज 222—सोयरा 224—मिहन्दरपुर
43. बलिया	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
44. बोसी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
45. ब्राजमगढ़	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
46. लालगंज (प्र०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
47. मछलीशहर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
48. जीनपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
49. सैदपुर (प्र०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
50. गाजीपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
51. खसौली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
52. वाराणसी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
53. राघट-सगंज (प्र०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
54. मिर्जापुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
55. कूचपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
56. हलाहाबाद	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
57. चायल (प्र०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
58. फतेहपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
59. बाँवा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	315—मानिकपुर (प्र०जा०) 316—कवी 317—खचेरू 319—बादा 320—नरैदी 321—हमीरपुर 322—मोवहा 323—राठ 324—बरखारी (प्र०जा०) 325—महोबा
60. हमीरपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
61. झांसी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
62. जालीन (प्र०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
63. घाटमपुर (प्र०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
64. बिल्हीर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
65. कानपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
66. इटावा	6 जनवरी, 1980 (रविवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	301—घोरेया 302—अजीतमल (प्र०जा०) 303—लखना (प्र०जा०) 304—इटावा 305—जसबन्त नगर
67. कन्नौज	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
68. फर्रुखाबाद	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
69. मैनपुरी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार) 6 जनवरी, 1980 (रविवार)	337—किशनो (प्र०जा०) 338—फर्रुख 340—जसरामा 341—धिरीग 342—मैनपुरी
70. जलेश्वर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	

1	2	3
71. एटा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	343—अमीगंज
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	344—पटियामी
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	345—सकीट
	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	346—सीरों
	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	348—एटा
72. फिरोजाबाद (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
73. आगरा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
74. मथुरा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
75. हाथरस (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
76. अलीगढ़	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
77. खुर्जा (अ०जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
78. बुलंदशहर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
79. हापुड़	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
80. मेरठ	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
81. बागपत	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
82. मुजफ्फरनगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
83. कौशावा	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
84. सहारनपुर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
85. हरद्वार (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	

22—पश्चिमी बंगाल

1. कूच बिहार (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
2. अनीपुर द्वारम (अ०ज०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
3. जलपाइगुड़ी	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
4. घाजिनिग	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
5. रायगंज	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
6. बालुरघाट (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
7. मालदा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
8. जंगीपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
9. मुर्शिदाबाद	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
10. बरहामपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
11. कृष्णनगर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
12. नवद्वीप (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
13. बारासत	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
14. बसीरहाट	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
15. जोयनगर (अ०जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
16. मथुरापुर (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
17. डायमण्ड हारबर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
18. जाबवपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
19. बैरकपोर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
20. दमदम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
21. कलकत्ता उत्तर पश्चिम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
22. कलकत्ता उत्तर पूर्व	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
23. कलकत्ता पश्चिम	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
24. हावड़ा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
25. उलूबेरिया	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
26. सेरामपोर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
27. हुगली	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
28. आरामबाग	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
29. पंसकुला	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
30. तामलुक	6 जनवरी, 1980 (रविवार)
31. कोन्टार्ड	6 जनवरी, 1980 (रविवार)

1	2	3
32. मिठनापुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
33. भाइग्राम (अ० ज० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
34. पुरूलिया	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
35. बंकुरा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
36. विशनुपुर (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
37. दुर्गापुर (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
38. आसनसोल	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
39. बर्दवान	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
40. कटवा	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
41. बोलपुर	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
42. बोरभूम (अ० जा०)	6 जनवरी, 1980 (रविवार)	
23—अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह		
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
24—अरुणाचल प्रदेश		
1. अरुणाचल पश्चिम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
2. अरुणाचल पूर्व	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
25—अण्डीगढ़		
अण्डीगढ़	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
26—दादरा और नागर हवेली		
दादरा और नागर हवेली (अ० ज० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
27—दिल्ली		
1. नई दिल्ली	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
2. दक्षिण दिल्ली	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
3. बाह्य दिल्ली	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
4. पूर्व दिल्ली	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
5. चांदनी चौक	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
6. दिल्ली सदर	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
7. करोलबाग (अ० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
28—गोवा दमण और दीप		
1. पणजी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
2. मोरमुगाओ	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
29—लक्षद्वीप		
लक्षद्वीप (अ० ज० जा०)	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
30—मिजोरम		
मिजोरम	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	
31—पांडिचेरी		
पांडिचेरी	3 जनवरी, 1980 (बृहस्पतिवार)	

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, 3rd December, 1979

NOTIFICATION

S.O. 778(E)—Whereas the President of India has, by notification published in the Gazette of India on the 3rd December, 1979, called upon all parliamentary constituencies to elect members to the House of the People;

Now, therefore, in pursuance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints with respect to each of the said elections—

- (a) the 10th December, 1979 (Monday) as the last date for making nominations;
- (b) the 11th December, 1979 (Tuesday), as the date for scrutiny of nominations;
- (c) the 13th December, 1979 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidature;
- (d) from each parliamentary constituency specified under each State in column 1 of the Schedule below, the date or dates specified against the said parliamentary constituency in column 2 thereof as the date or dates on which a poll shall, if necessary, be taken in that constituency or in the area comprised within the assembly constituency specified in column 3 against each of the dates; and
- (e) the 10th January, 1980 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

SCHEDULE

Serial No. and Name of Parliamentary Constituency	Date of poll	Serial No. and name of assembly Constituency
1	2	3
1. ANDHRA PRADESH		
1. Sirikakulam	6th January, 1980 (Sunday)	
2. Parvathipuram (ST)	6th January, 1980 (Sunday)	
3. Bobbili	6th January, 1980 (Sunday)	
4. Visakhapatnam	6th January, 1980 (Sunday)	
5. Badrachalam (ST)	6th January, 1980 (Sunday)	
6. Anakapalli	6th January, 1980 (Sunday)	
7. Kakinada	6th January, 1980 (Sunday)	
8. Rajahmundry	6th January, 1980 (Sunday)	
9. Amalapuram(SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
10. Narasapur	6th January, 1980 (Sunday)	
11. Eluru	6th January, 1980 (Sunday)	
12. Machilipatnam	6th January, 1980 (Sunday)	
13. Vijayawada	6th January, 1980 (Sunday)	
14. Tenali	6th January, 1980 (Sunday)	
15. Guntur	6th January, 1980 (Sunday)	
16. Bapatla	6th January, 1980 (Sunday)	
17. Narasaraopet	6th January, 1980 (Sunday)	
18. Ongole	6th January, 1980 (Sunday)	
19. Nellore (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
20. Tirupathi (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
21. Chittoor	6th January, 1980 (Sunday)	
22. Rajampet	6th January, 1980 (Sunday)	
23. Cuddapah	6th January, 1980 (Sunday)	
24. Hindupur	6th January, 1980 (Sunday)	
25. Anantapur	6th January, 1980 (Sunday)	
26. Kurnool	6th January, 1980 (Sunday)	
27. Nandyal	6th January, 1980 (Sunday)	
28. Nagarkurnool (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
29. Mahbubnagar	6th January, 1980 (Sunday)	
30. Hyderabad	6th January, 1980 (Sunday)	
31. Secunderabad	6th January, 1980 (Sunday)	
32. Siddipet (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
33. Medak	6th January, 1980 (Sunday)	
34. Nizamabad	6th January, 1980 (Sunday)	
35. Adilabad	6th January, 1980 (Sunday)	
36. Peddapalli (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
37. Karimnagar	6th January, 1980 (Sunday)	
38. Hanamkonda	6th January, 1980 (Sunday)	
39. Warangal	6th January, 1980 (Sunday)	
40. Khammam	6th January, 1980 (Sunday)	
41. Nalgonda	6th January, 1980 (Sunday)	
42. Miryalguda	6th January, 1980 (Sunday)	

1

2

3

2. ASSAM

1. Karimganj (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
2. Silchar	6th January, 1980 (Sunday)
3. Autonomous District (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
4. Dhubri	3rd January, 1980 (Thursday)
5. Kokrajhar (ST)	6th January, 1980 (Sunday)
6. Barpeta	3rd January, 1980 (Thursday)
7. Gauhati	6th January, 1980 (Sunday)
8. Mangaldoi	3rd January, 1980 (Thursday)
9. Tezpur	6th January, 1980 (Sunday)
10. Nowgong	6th January, 1980 (Sunday)
11. Kallabor	3rd January, 1980 (Thursday)
12. Jorhat	6th January, 1980 (Sunday)
13. Dibrugarh	6th January, 1980 (Sunday)
14. Lakhimpur	3rd January, 1980 (Thursday)

3. BIHAR

1. Bagaha (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
2. Bettiah	6th January, 1980 (Sunday)
3. Motihari	6th January, 1980 (Sunday)
4. Gopalganj	6th January, 1980 (Sunday)
5. Siwan	6th January, 1980 (Sunday)
6. Maharajganj	6th January, 1980 (Sunday)
7. Chapra	6th January, 1980 (Sunday)
8. Hajipur (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
9. Vaishali	6th January, 1980 (Sunday)
10. Muzaffarpur	6th January, 1980 (Sunday)
11. Sitamarhi	6th January, 1980 (Sunday)
12. Sheohar	6th January, 1980 (Sunday)
13. Madhubani	6th January, 1980 (Sunday)
14. Jhanjharpur	6th January, 1980 (Sunday)
15. Darbhanga	6th January, 1980 (Sunday)
16. Rosera (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
17. Samastipur	6th January, 1980 (Sunday)
18. Barh	6th January, 1980 (Sunday)
19. Balia	6th January, 1980 (Sunday)
20. Saharsa	6th January, 1980 (Sunday)
21. Madhepura	6th January, 1980 (Sunday)
22. Araria (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
23. Kishanganj	6th January, 1980 (Sunday)
24. Purnea	6th January, 1980 (Sunday)
25. Katihar	6th January, 1980 (Sunday)
26. Rajmahal (ST)	6th January, 1980 (Sunday)
27. Dumka (ST)	6th January, 1980 (Sunday)
28. Godda	6th January, 1980 (Sunday)
29. Banka	6th January, 1980 (Sunday)
30. Bhagalpur	6th January, 1980 (Sunday)
31. Khagaria	6th January, 1980 (Sunday)
32. Monghyr	6th January, 1980 (Sunday)
33. Begusarai	6th January, 1980 (Sunday)
34. Nalanda	6th January, 1980 (Sunday)
35. Patna	6th January, 1980 (Sunday)
36. Arrah	6th January, 1980 (Sunday)
37. Buxar	6th January, 1980 (Sunday)
38. Sasaram (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
39. Bikramganj	6th January, 1980 (Sunday)
40. Aurangabad	6th January, 1980 (Sunday)
41. Jahanabad	6th January, 1980 (Sunday)
42. Nawada (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
43. Gaya (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
44. Chatra	6th January, 1980 (Sunday)
45. Kodarma	6th January, 1980 (Sunday)
46. Giridih	6th January, 1980 (Sunday)
47. Dhanbad	6th January, 1980 (Sunday)

1	2	3
48. Hazaribagh	6th January, 1980 (Sunday)	
49. Ranchi	6th January, 1980 (Sunday)	
50. Jamshedpur	6th January, 1980 (Sunday)	
51. Singhbhum (ST)	6th January, 1980 (Sunday)	
52. Khunti (ST)	6th January, 1980 (Sunday)	
53. Lohardaga (ST)	6th January, 1980 (Sunday)	
54. Palamau (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
4. GUJARAT		
1. Kutch	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. Surendranagar	6th January, 1980 (Sunday)	
3. Jamnagar	6th January, 1980 (Sunday)	
4. Rajkot	6th January, 1980 (Sunday)	
5. Porbandar	3rd January, 1980 (Thursday)	
6. Junagadh	6th January, 1980 (Sunday)	
7. Amreli	3rd January, 1980 (Thursday)	
8. Bhavnagar	6th January, 1980 (Sunday)	
9. Dhandhuka (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
10. Ahmedabad	6th January, 1980 (Sunday)	
11. Gandhinagar	6th January, 1980 (Sunday)	
12. Mehsana	6th January, 1980 (Sunday)	
13. Patan (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
14. Banaskantha	6th January, 1980 (Sunday)	
15. Sabarkantha	3rd January, 1980 (Thursday)	
16. Kapadvanj	3rd January, 1980 (Thursday)	
17. Dohad (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
18. Godhra	6th January, 1980 (Sunday)	
19. Kaira	6th January, 1980 (Sunday)	
20. Anand	3rd January, 1980 (Thursday)	
21. Chhota Udaipur (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
22. Baroda	6th January, 1980 (Sunday)	
23. Broach	3rd January, 1980 (Thursday)	
24. Surat	6th January, 1980 (Sunday)	
25. Mandvi (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
26. Bulsar (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
5. HARYANA		
1. Ambala (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. Kurukshetra	3rd January, 1980 (Thursday)	
3. Karnal	3rd January, 1980 (Thursday)	
4. Sonapat	3rd January, 1980 (Thursday)	
5. Rohtak	3rd January, 1980 (Thursday)	
6. Faridabad	3rd January, 1980 (Thursday)	
7. Mahendragarh	3rd January, 1980 (Thursday)	
8. Bhiwani	3rd January, 1980 (Thursday)	
9. Hissar	3rd January, 1980 (Thursday)	
10. Sirsa (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
6. HIMACHAL PRADESH		
1. Simla (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. Mandi	3rd January, 1980 (Thursday)	
	3rd January, 1980 (Thursday)	1—Kinnaer (ST)
	3rd January, 1980 (Thursday)	2—Rampur (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	54—Bharmour (ST)
	3rd January, 1980 (Thursday)	55—Lahaul and Spiti (ST)
	3rd January, 1980 (Thursday)	56—Kulu
	3rd January, 1980 (Thursday)	57—Banjar
	3rd January, 1980 (Thursday)	58—Ani (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	59—Karsog (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	60—Chachior
	3rd January, 1980 (Thursday)	61—Nahan (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	62—Sundernagar

1	2	3
	3rd January, 1980 (Thursday)	63—Bath (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	64—Gopalpur
	3rd January, 1980 (Thursday)	65—Dharampur
	3rd January, 1980 (Thursday)	66—Joginder Nagar
	3rd January, 1980 (Thursday)	67—Darang
	3rd January, 1980 (Thursday)	68—Mandi
3. Kangra	3rd January, 1980 (Thursday)	
4. Hamirpur	3rd January, 1980 (Thursday)	
7. JAMMU AND KASHMIR		
1. Baramulla	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. Srinagar	6th January, 1980 (Sunday)	
3. Anantnag	3rd January, 1980 (Thursday)	
4. Ladakh	6th January, 1980 (Sunday)	
5. Udhampur	3rd January, 1980 (Thursday)	
6. Jammu	6th January, 1980 (Sunday)	
8. KARNATAKA		
1. Bidar (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. Gulbarga	3rd January, 1980 (Thursday)	
3. Raichur	6th January, 1980 (Sunday)	
4. Koppal	3rd January, 1980 (Thursday)	
5. Bellary	6th January, 1980 (Sunday)	
6. Devangere	6th January, 1980 (Sunday)	
7. Chitradurga	3rd January, 1980 (Thursday)	
8. Tumkur	3rd January, 1980 (Thursday)	
9. Chikballapur	3rd January, 1980 (Thursday)	
10. Kolar (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
11. Kanakapura	6th January, 1980 (Sunday)	
12. Bangalore North	6th January, 1980 (Sunday)	
13. Bangalore South	6th January, 1980 (Sunday)	
14. Mandya	3rd January, 1980 (Thursday)	
15. Chamaraajanagar (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
16. Mysore	6th January, 1980 (Sunday)	
17. Mangalore	3rd January, 1980 (Thursday)	
18. Udupi	6th January, 1980 (Sunday)	
19. Hassan	6th January, 1980 (Sunday)	
20. Chikmagalur	3rd January, 1980 (Thursday)	
21. Shimoga	6th January, 1980 (Sunday)	
22. Kanara	3rd January, 1980 (Thursday)	
23. Dharwad South	3rd January, 1980 (Thursday)	
24. Dharwad North	6th January, 1980 (Sunday)	
25. Belgaum	3rd January, 1980 (Thursday)	
26. Chikkodi (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
27. Bagalkot	6th January, 1980 (Sunday)	
28. Bijapur	6th January, 1980 (Sunday)	
9. KERALA		
1. Kasaragod	6th January, 1980 (Sunday)	
2. Cannanore	6th January, 1980 (Sunday)	
3. Badagara	3rd January, 1980 (Thursday)	
4. Calicut	3rd January, 1980 (Thursday)	
5. Manjeri	3rd January, 1980 (Thursday)	
6. Ponnani	3rd January, 1980 (Thursday)	
7. Palghat	6th January, 1980 (Sunday)	
8. Ottapalam (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
9. Trichur	3rd January, 1980 (Thursday)	
10. Mukundapuram	3rd January, 1980 (Thursday)	
11. Ernakulam	6th January, 1980 (Sunday)	
12. Muvattupuzha	6th January, 1980 (Sunday)	
13. Kottayam	3rd January, 1980 (Thursday)	
14. Idukki	6th January, 1980 (Sunday)	
15. Alleppey	6th January, 1980 (Sunday)	
16. Mavelikara	6th January, 1980 (Sunday)	

1	2	3
17. Adoor (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
18. Qul'cn	3rd January, 1980 (Thursday)	
19. Chirayinkil	3rd January, 1980 (Thursday)	
20. Trivandrum	3rd January, 1980 (Thursday)	
10. MADHYA PRADESH		
1. Morena (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. Bhind	6th January, 1980 (Sunday)	
3. Gwalior	3rd January, 1980 (Thursday)	
4. Guna	6th January, 1980 (Sunday)	
5. Sagar (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
6. Khajuraho	6th January, 1980 (Sunday)	
7. Damoh	3rd January, 1980 (Thursday)	
8. Satna	3rd January, 1980 (Thursday)	
9. Rewa	6th January, 1980 (Sunday)	
10. Sidhi (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
11. Shahdol (ST)	6th January, 1980 (Sunday)	
12. Surguja (ST)	6th January, 1980 (Sunday)	
13. Raigarh (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
14. Janjgir	3rd January, 1980 (Thursday)	
15. Bilaspur (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
16. Sarangarh (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
17. Raipur	6th January, 1980 (Sunday)	
18. Mahasamund	3rd January, 1980 (Thursday)	
19. Kanker (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	143—Sihawa (ST)
	3rd January, 1980 (Thursday)	146—Bhanupratappur (ST)
	3rd January, 1980 (Thursday)	147—Kanker (ST)
	6th January, 1980 (Sunday)	148—Keskal (ST)
	3rd January, 1980 (Thursday)	157—Narayanpur (ST)
	6th January, 1980 (Sunday)	165—Gunderdehi
	6th January, 1980 (Sunday)	167—Balod
	6th January, 1980 (Sunday)	168—Dondi Lohara (ST)
20. Bastar (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	149—Kondagaon (ST)
	6th January, 1980 (Sunday)	150—Bhanpuri (ST)
	6th January, 1980 (Sunday)	151—Jagdalpur (ST)
	6th January, 1980 (Sunday)	152—Keshur (ST)
	3rd January, 1980 (Thursday)	153—Chitrakote (ST)
	6th January, 1980 (Sunday)	154—Dantewara (ST)
	6th January, 1980 (Sunday)	155—Konta (ST)
	3rd January, 1980 (Thursday)	156—Bijapur (ST)
21. Durg	3rd January, 1980 (Thursday)	
22. Rajnandgaon	6th January, 1980 (Sunday)	
23. Balaghat	3rd January, 1980 (Thursday)	
24. Mandla (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
25. Jabalpur	6th January, 1980 (Sunday)	
26. Seoni	3rd January, 1980 (Thursday)	
27. Chhindwara	3rd January, 1980 (Thursday)	
28. Betul	3rd January, 1980 (Thursday)	
29. Hoshangabad	6th January, 1980 (Sunday)	
30. Bhopal	3rd January, 1980 (Thursday)	
31. Vidisha	6th January, 1980 (Sunday)	
32. Raigarh	3rd January, 1980 (Thursday)	
33. Shajapur (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
34. Khandwa	6th January, 1980 (Sunday)	
35. Khargone	3rd January, 1980 (Thursday)	
36. Dhar (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
37. Indore	3rd January, 1980 (Thursday)	
38. Ujjain (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
39. Jabua (ST)	6th January, 1980 (Sunday)	
40. Mandasaur	3rd January, 1980 (Thursday)	

1

2

3

11. MAHARASHTRA

1. Rajapur	3rd January, 1980 (Thursday)
2. Ratnagiri	6th January, 1980 (Sunday)
3. Kulaba	6th January, 1980 (Sunday)
4. Bombay South	3rd January, 1980 (Thursday)
5. Bombay South Central	3rd January, 1980 (Thursday)
6. Bombay North Central	3rd January, 1980 (Thursday)
7. Bombay North East	3rd January, 1980 (Thursday)
8. Bombay North West	3rd January, 1980 (Thursday)
9. Bombay North	3rd January, 1980 (Thursday)
10. Thane	3rd January, 1980 (Thursday)
11. Dahanu (ST)	6th January, 1980 (Sunday)
12. Nasik	6th January, 1980 (Sunday)
13. Malegaon (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
14. Dhule (ST)	6th January, 1980 (Sunday)
15. Nandurbar (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
16. Erandol	3rd January, 1980 (Thursday)
17. Jalgaon	6th January, 1980 (Sunday)
18. Buldhana (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
19. Akola	6th January, 1980 (Sunday)
20. Washim	3rd January, 1980 (Thursday)
21. Amravati	6th January, 1980 (Sunday)
22. Ramtek	6th January, 1980 (Sunday)
23. Nagpur	3rd January, 1980 (Thursday)
24. Bhandara	3rd January, 1980 (Thursday)
25. Chimum	6th January, 1980 (Sunday)
26. Chandrapur	3rd January, 1980 (Thursday)
27. Wardha	6th January, 1980 (Sunday)
28. Yavatmal	6th January, 1980 (Sunday)
29. Hingoli	6th January, 1980 (Sunday)
30. Nanded	3rd January, 1980 (Thursday)
31. Parbhani	6th January, 1980 (Sunday)
32. Jalna	3rd January, 1980 (Thursday)
33. Aurangabad	6th January, 1980 (Sunday)
34. Bhir	6th January, 1980 (Sunday)
35. Latur	3rd January, 1980 (Thursday)
36. Osmanabad (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
37. Solapur	3rd January, 1980 (Thursday)
38. Pandharpur (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
39. Ahmednagar	3rd January, 1980 (Thursday)
40. Kopargao	6th January, 1980 (Sunday)
41. Khed	3rd January, 1980 (Thursday)
42. Pune	3rd January, 1980 (Thursday)
43. Baramati	6th January, 1980 (Sunday)
44. Satara	3rd January, 1980 (Thursday)
45. Karad	6th January, 1980 (Sunday)
46. Sangli	3rd January, 1980 (Thursday)
47. Ichalkaranji	6th January, 1980 (Sunday)
48. Kolhapur	3rd January, 1980 (Thursday)

12. MANIPUR

1. Inner Manipur	6th January, 1980 (Sunday)
2. Outer Manipur (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)

13. MEGHALAYA

1. Shillong	3rd January, 1980 (Thursday)
2. Toura	3rd January, 1980 (Thursday)

14 NAGALAND

Nagaland	3rd January, 1980 (Thursday)
----------	------------------------------

1

2

3

15. ORISSA

1. Mayurbhanj (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
2. Balasore	3rd January, 1980 (Thursday)
3. Bhadrak (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
4. Jajpur (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
5. Kendrapara	3rd January, 1980 (Thursday)
6. Cuttack	3rd January, 1980 (Thursday)
7. Jagatsinghpur	3rd January, 1980 (Thursday)
8. Puri	3rd January, 1980 (Thursday)
9. Bhubaneswar	3rd January, 1980 (Thursday)
10. Aska	3rd January, 1980 (Thursday)
11. Berhampur	3rd January, 1980 (Thursday)
12. Koraput (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
13. Nowrangpur (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
14. Kalahandi	3rd January, 1980 (Thursday)
15. Phulbani (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
16. Bolangir	3rd January, 1980 (Thursday)
17. Sambalpur	3rd January, 1980 (Thursday)
18. Deogarh	3rd January, 1980 (Thursday)
19. Dhenkanal	3rd January, 1980 (Thursday)
20. Sundargarh (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
21. Keonjhar (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)

16. PUNJAB

1. Gurdaspur	3rd January, 1980 (Thursday)
2. Amritsar	3rd January, 1980 (Thursday)
3. Tarn Taran	3rd January, 1980 (Thursday)
4. Jullundur	3rd January, 1980 (Thursday)
5. Phillaur (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
6. Hoshiarpur	3rd January, 1980 (Thursday)
7. Ropar (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
8. Patiala	3rd January, 1980 (Thursday)
9. Ludhiana	3rd January, 1980 (Thursday)
10. Sangrur	3rd January, 1980 (Thursday)
11. Bhatinda (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
12. Faridkot	3rd January, 1980 (Thursday)
13. Ferozepur	3rd January, 1980 (Thursday)

17. RAJASTHAN

1. Ganganagar (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
2. Bikaner	6th January, 1980 (Sunday)
3. Churu	3rd January, 1980 (Thursday)
4. Jhunjhunu	3rd January, 1980 (Thursday)
5. Sikar	6th January, 1980 (Sunday)
6. Jaipur	6th January, 1980 (Sunday)
7. Dausa	6th January, 1980 (Sunday)
8. Alwar	3rd January, 1980 (Thursday)
9. Bharatpur	3rd January, 1980 (Thursday)
10. Bikaner (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
11. Sawai Madhopur (ST)	6th January, 1980 (Sunday)
12. Ajmer	6th January, 1980 (Sunday)
13. Tonk (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
14. Kota	6th January, 1980 (Sunday)
15. Jhalawar	3rd January, 1980 (Thursday)
16. Banswara (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
	6th January, 1980 (Sunday)
	6th January, 1980 (Sunday)
	6th January, 1980 (Sunday)
	3rd January, 1980 (Thursday)
	6th January, 1980 (Sunday)
	3rd January, 1980 (Thursday)
	6th January, 1980 (Sunday)
17. Salumber (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)
18. Udaipur	6th January, 1980 (Sunday)

128—Khushalgarh (ST)
 129—Danpur (ST)
 130—Ghatol (ST)
 131—Banswara
 132—Bagidora (ST)
 133—Sagwara (ST)
 134—Chorasi (ST)
 135—Dungarpur (ST)

1	2	3
19. Chittorgarh	3rd January, 1980 (Thursday) 3rd January, 1980 (Thursday) 3rd January, 1980 (Thursday) 6th January, 1980 (Sunday) 6th January, 1980 (Sunday) 6th January, 1980 (Sunday) 3rd January, 1980 (Thursday) 6th January, 1980 (Sunday)	108—Ladpura 115—Ramganj Mandi 121—Begun 122—Gangrar (SC) 123—Kapasin 124—Chittorgarh 125—Nimbahera 126—Badi Sedri
20. Bhilwara	3rd January, 1980 (Thursday)	
21. Pali	6th January, 1980 (Sunday)	
22. Jalore (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
23. Barmer	3rd January, 1980 (Thursday) 6th January, 1980 (Sunday) 6th January, 1980 (Sunday) 6th January, 1980 (Sunday) 3rd January, 1980 (Thursday) 3rd January, 1980 (Thursday) 3rd January, 1980 (Thursday) 6th January, 1980 (Sunday)	175—Siwana (SC) 176—Pachpadra 177—Barmer 178—Gudamalani 179—Chobtan 180—Sheo 181—Jaisalmer 182—Shergarh
24. Jodhpur	3rd January, 1980 (Thursday)	
25. Nagaur	6th January, 1980 (Sunday)	

18. SIKKIM

Sikkim	3rd January, 1980 (Thursday)
--------	------------------------------

19. TAMILNADU

1. Madras North	6th January, 1980 (Sunday)
2. Madras Central	6th January, 1980 (Sunday)
3. Madras South	6th January, 1980 (Sunday)
4. Sriperumbudur (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
5. Chengalpattu	6th January, 1980 (Sunday)
6. Arakkonam	3rd January, 1980 (Thursday)
7. Vellore	3rd January, 1980 (Thursday)
8. Tiruppattur	3rd January, 1980 (Thursday)
9. Vandavasi	6th January, 1980 (Sunday)
10. Tindivanam	3rd January, 1980 (Thursday)
11. Cuddalore	3rd January, 1980 (Thursday)
12. Chidambaram (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
13. Dharmapuri	6th January, 1980 (Sunday)
14. Krishnagiri	6th January, 1980 (Sunday)
15. Rasipuram (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
16. Salem	6th January, 1980 (Sunday)
17. Tiruchengode	3rd January, 1980 (Thursday)
18. Nilgiris	3rd January, 1980 (Thursday)
19. Gobichettipalayam	3rd January, 1980 (Thursday)
20. Coimbatore	6th January, 1980 (Sunday)
21. Pollachi (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
22. Palani	3rd January, 1980 (Thursday)
23. Dindigul	6th January, 1980 (Sunday)
24. Madurai	6th January, 1980 (Sunday)
25. Periyakulam	3rd January, 1980 (Thursday)
26. Karur	6th January, 1980 (Sunday)
27. Tiruchirappalli	6th January, 1980 (Sunday)
28. Perambalur (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
29. Mayuram	6th January, 1980 (Sunday)
30. Nagapattinam (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
31. Thanjavur	3rd January, 1980 (Thursday)
32. Pudukkottai	6th January, 1980 (Sunday)
33. Sivaganga	3rd January, 1980 (Thursday)
34. Ramanathapuram	3rd January, 1980 (Thursday)
35. Sivakasi	6th January, 1980 (Sunday)
36. Tirunelveli	6th January, 1980 (Sunday)
37. Tenkasi (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
38. Tiruchendur	3rd January, 1980 (Thursday)
39. Nagercoil	6th January, 1980 (Sunday)

1

2

3

20. TRIPURA

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Tripura West | 6th January, 1980 (Sunday) |
| 2. Tripura East (ST) | 6th January, 1980 (Sunday) |

21. UTTAR PRADESH

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Tehri Garhwal | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 2. Garhwal | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 3. Almora | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 4. Naini Tal | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 5. Bijnor (SC) | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 6. Amroha | 6th January, 1980 (Sunday) | 17—Seohara |
| | 6th January, 1980 (Sunday) | 18—Dhampur |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 24—Kanth |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 25—Amroha |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 26—Hasanpur |
| 7. Moradabad | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 8. Rampur | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 9. Sambhal | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 10. Budaun | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 11. Aonla | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 12. Bareilly | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 13. Pilibhit | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 14. Shahjahanpur | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 15. Kheri | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 16. Shahabad | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 17. Sitapur | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 18. Mirrikh (SC) | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 19. Hardoi (SC) | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 20. Lucknow | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 21. Mohanlalganj (SC) | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 22. Unnao | 6th January, 1980 (Sunday) | 92—Bangarmau |
| | 6th January, 1980 (Sunday) | 93—Safipur (SC) |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 94—Unnao |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 95—Hadha |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 96—Bhagwantnagar |
| 23. Rae Bareilly | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 24. Pratapgarh | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 25. Amethi | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 26. Sultanpur | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 27. Akbarpur (SC) | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 28. Faizabad | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 29. Bura Banki (SC) | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 30. Kaiserganj | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 31. Bahraich | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 32. Balrampur | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 33. Gonda | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 34. Basti (SC) | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 35. Domariaganj | 6th January, 1980 (Sunday) | |
| 36. Khalilabad | 3rd January, 1980 (Thursday) | 169—Ramnagar |
| | 6th January, 1980 (Sunday) | 175—Khesraha |
| | 6th January, 1980 (Sunday) | 176—Mehdawal |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 177—Khalilabad (SC) |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 178—Hainsarbazar (SC) |
| 37. Bansaon (SC) | 3rd January, 1980 (Thursday) | |
| 38. Gorakhpur | 3rd January, 1980 (Thursday) | 184—Pipraich |
| | 6th January, 1980 (Sunday) | 185—Gorakhpur |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 186—Maniram |
| | 3rd January, 1980 (Thursday) | 187—Sahjanwa |
| | 6th January, 1980 (Sunday) | 193—Shyam Deurwa |

1	2	3
39. Maharajganj	6th January, 1980 (Sunday)	
40. Padrauna	6th January, 1980 (Sunday)	194—Naurangia (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	195—Ramkola
	3rd January, 1980 (Thursday)	196—Hata (SC)
	6th January, 1980 (Sunday)	197—Padrauna
	6th January, 1980 (Sunday)	198—Sorahi
41. Deoria	6th January, 1980 (Sunday)	199—Fazilnagar
	6th January, 1980 (Sunday)	200—Kasia
	3rd January, 1980 (Thursday)	201—Gauri Bazar
	3rd January, 1980 (Thursday)	202—Rudrapur
	6th January, 1980 (Sunday)	203—Deoria
42. Salempur	6th January, 1980 (Sunday)	204—Bhatpar Rani
	6th January, 1980 (Sunday)	205—Salempur
	3rd January, 1980 (Thursday)	206—Berhaji
	3rd January, 1980 (Thursday)	222—Siar
	6th January, 1980 (Sunday)	224—Sikandarpur
43. Ballia	6th January, 1980 (Sunday)	
44. Ghosi	3rd January, 1980 (Thursday)	
45. Azamgarh	3rd January, 1980 (Thursday)	
46. Lalganj (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
47. Machlishahr	3rd January, 1980 (Thursday)	
48. Jaunpur	6th January, 1980 (Sunday)	
49. Saidpur (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
50. Ghazipur	6th January, 1980 (Sunday)	
51. Chandauli	6th January, 1980 (Sunday)	
52. Varanasi	3rd January, 1980 (Thursday)	
53. Robertsganj (SC)	6th January, 1980 (Sunday)	
54. Mirzapur	3rd January, 1980 (Thursday)	
55. Phulpur	6th January, 1980 (Sunday)	
56. Allahabad	3rd January, 1980 (Thursday)	
57. Chail (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
58. Fatehpur	6th January, 1980 (Sunday)	
59. Banda	3rd January, 1980 (Thursday)	315—Manikpur (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	316—Karwi
	6th January, 1980 (Sunday)	317—Baberu
	6th January, 1980 (Sunday)	319—Banda
	3rd January, 1980 (Thursday)	320—Naraini
60. Hamirpur	6th January, 1980 (Sunday)	321—Hamirpur
	3rd January, 1980 (Thursday)	322—Maudaha
	6th January, 1980 (Sunday)	323—Rath
	3rd January, 1980 (Thursday)	324—Charkhari (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	325—Mahoba
	6th January, 1980 (Sunday)	
61. Jhansi	3rd January, 1980 (Thursday)	
62. Jalaun (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
63. Ghatampur (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
64. Bilhaur	6th January, 1980 (Sunday)	
65. Kanpur	6th January, 1980 (Sunday)	
66. Etawah	6th January, 1980 (Sunday)	301—Auraiya
	3rd January, 1980 (Thursday)	302—Ajitmal (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	303—Lakhana (SC)
	3rd January, 1980 (Thursday)	304—Etawah
	3rd January, 1980 (Thursday)	305—Jaswant Nagar
	6th January, 1980 (Sunday)	
67. Kannauj	3rd January, 1980 (Thursday)	
68. Farrukhabad	3rd January, 1980 (Thursday)	337—Kishni (SC)
69. Mainpuri	3rd January, 1980 (Thursday)	338—Karhal
	6th January, 1980 (Sunday)	340—Jasrana
	6th January, 1980 (Sunday)	341—Ghiror
	6th January, 1980 (Sunday)	342—Mainpuri
	6th January, 1980 (Sunday)	
70. Jalesar	6th January, 1980 (Sunday)	
71. Etah	3rd January, 1980 (Thursday)	343—Aghanj
	3rd January, 1980 (Thursday)	344—Patiali
	3rd January, 1980 (Thursday)	345—Sakil
	6th January, 1980 (Sunday)	346—Soron
	3rd January, 1980 (Thursday)	348—Etah
72. Firozabad (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	

1

2

3

73. Agra	3rd January, 1980 (Thursday)
74. Mathura	3rd January, 1980 (Thursday)
75. Hathras (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
76. Aligarh	3rd January, 1980 (Thursday)
77. Khurja (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)
78. Bulandshahr	6th January, 1980 (Sunday)
79. Hapur	3rd January, 1980 (Thursday)
80. Meerut	3rd January, 1980 (Thursday)
81. Baghpat	3rd January, 1980 (Thursday)
82. Muzaffarnagar	6th January, 1980 (Sunday)
83. Kairana	3rd January, 1980 (Thursday)
84. Saharanpur	3rd January, 1980 (Thursday)
85. Hardwar (SC)	6th January, 1980 (Sunday)

22. WEST BENGAL

1. Cooch Behar (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
2. Alipurduars (ST)	6th January, 1980 (Sunday)
3. Jalpaiguri	6th January, 1980 (Sunday)
4. Darjeeling	6th January, 1980 (Sunday)
5. Raiganj	6th January, 1980 (Sunday)
6. Balurghat (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
7. Malda	6th January, 1980 (Sunday)
8. Jangipur	6th January, 1980 (Sunday)
9. Murshidabad	6th January, 1980 (Sunday)
10. Berhampore	6th January, 1980 (Sunday)
11. Krishnagar	6th January, 1980 (Sunday)
12. Nabadwip (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
13. Barasat	6th January, 1980 (Sunday)
14. Basirhat	6th January, 1980 (Sunday)
15. Joynagar (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
16. Mathurapur (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
17. Diamond Harbour	6th January, 1980 (Sunday)
18. Jadavpur	6th January, 1980 (Sunday)
19. Barrackpore	6th January, 1980 (Sunday)
20. Dum Dum	6th January, 1980 (Sunday)
21. Calcutta North West	6th January, 1980 (Sunday)
22. Calcutta North East	6th January, 1980 (Sunday)
23. Calcutta South	6th January, 1980 (Sunday)
24. Howrah	6th January, 1980 (Sunday)
25. Uluberia	6th January, 1980 (Sunday)
26. Serampore	6th January, 1980 (Sunday)
27. Hooghly	6th January, 1980 (Sunday)
28. Arambagh	6th January, 1980 (Sunday)
29. Panskura	6th January, 1980 (Sunday)
30. Tamluk	6th January, 1980 (Sunday)
31. Contai	6th January, 1980 (Sunday)
32. Midnapore	6th January, 1980 (Sunday)
33. Jhargram (ST)	6th January, 1980 (Sunday)
34. Purulia	6th January, 1980 (Sunday)
35. Bankura	6th January, 1980 (Sunday)
36. Vishnupur (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
37. Durgapur (SC)	6th January, 1980 (Sunday)
38. Asansol	6th January, 1980 (Sunday)
39. Burdwan	6th January, 1980 (Sunday)
40. Katwa	6th January, 1980 (Sunday)
41. Bolpur	6th January, 1980 (Sunday)
42. Birbhum (SC)	6th January, 1980 (Sunday)

23. ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

Andaman & Nicobar Islands

3rd January, 1980 (Thursday)

1	2	3
24. ARUNACHAL PRADESH		
1. Arunachal West	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. Arunachal East	3rd January, 1980 (Thursday)	
25. CHANDIGARH		
Chandigarh	3rd January, 1980 (Thursday)	
26. DADRA AND NAGAR HAVELI		
Dadra & Nagar Haveli (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
27. DELHI		
1. New Delhi	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. South Delhi	3rd January, 1980 (Thursday)	
3. Outer Delhi	3rd January, 1980 (Thursday)	
4. East Delhi	3rd January, 1980 (Thursday)	
5. Chandni Chowk	3rd January, 1980 (Thursday)	
6. Delhi Sadar	3rd January, 1980 (Thursday)	
7. Karol Bagh (SC)	3rd January, 1980 (Thursday)	
28. GOA, DAMAN AND DIU		
1. Panaji	3rd January, 1980 (Thursday)	
2. Mormugao	3rd January, 1980 (Thursday)	
29. LAKSHADWEEP		
Lakshadweep (ST)	3rd January, 1980 (Thursday)	
30. MIZORAM		
Mizoram	3rd January, 1980 (Thursday)	
31. PONDICHERRY		
Pondicherry	3rd January, 1980 (Thursday)	

[No - 464/79]

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1979

क्र० घा० 779 (घ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में नियत करना है, जिसके दौरान, भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii) में तारीख 3 दिसम्बर, 1979 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, लोक सभा के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट राज्य से होने वाले निर्वाचन में, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान होगा।

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मतदान का समय
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
2. आसाम	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
3. बिहार	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
4. गुजरात	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
5. हरियाणा	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
6. हिमाचल प्रदेश	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
7. जम्मू-कश्मीर	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
8. कर्नाटक	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
9. केरल	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
10. मध्य प्रदेश	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
11. महाराष्ट्र	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
12. मणिपुर	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।

13. मेघालय	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
14. नागालैंड	7.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न तक।
15. उड़ीसा	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
16. पंजाब	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
17. राजस्थान	8.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक।
18. सिक्किम	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
19. तमिलनाडु	8.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक।
20. त्रिपुरा	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
21. उत्तर प्रदेश	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
22. पश्चिमी बंगाल	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
24. अरुणाचल प्रदेश	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
25. चण्डीगढ़	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
26. वाकरा और नागर हवेली	8.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक।
27. दिल्ली	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
28. गोवा, दमण और दीव	8.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक।
29. लक्षद्वीप	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।
30. मिजोरम	7.30 बजे पूर्वाह्न से 3.30 बजे अपराह्न तक।
31. पांडिचेरी	8.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक।

[सं० 464/79 (1)]

आदेश से,
के० गणेशन, सचिव

New Delhi, the 3rd December, 1979

S.O. 779(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours of poll specified in column 2 of the Table below as the period during which a poll shall, if necessary, be taken at the election to the House of the People to be held in the State specified in column 1, in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 3rd December, 1979.

TABLE

Name of State/Union Territory	Hours of poll
1	2
1. Andhra Pradesh	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
2. Assam	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
3. Bihar	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
4. Gujarat	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
5. Haryana	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
6. Himachal Pradesh	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
7. Jammu & Kashmir	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
8. Karnataka	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
9. Kerala	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
10. Madhya Pradesh	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
11. Maharashtra	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
12. Manipur	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
13. Meghalaya	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
14. Nagaland	7.30 A.M. to 3.30 P.M.
15. Orissa	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
16. Punjab	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
17. Rajasthan	8.30 A.M. to 4.30 P.M.

1	2
18. Sikkim	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
19. Tamil Nadu	8.30 A.M. to 4.30 P.M.
20. Tripura	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
21. Uttar Pradesh	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
22. West Bengal	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
23. Andaman and Nicobar Islands	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
24. Arunachal Pradesh	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
25. Chandigarh	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
26. Dadra and Nagar Haveli	8.30 A.M. to 4.30 P.M.
27. Delhi	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
28. Goa, Daman and Diu	8.30 A.M. to 4.30 P.M.
29. Lakshadweep	8.00 A.M. to 4.00 P.M.
30. Mizoram	7.30 A.M. to 3.30 P.M.
31. Pondicherry	8.00 A.M. to 4.00 P.M.

[No. 464/79 (1)]
By Order,
K. GANESAN, Secy.

